

प्रेस नोट थाना बसई मौहम्मदपुर जनपद फ़िरोज़ाबाद दिनांक 24.04.2021

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक फ़िरोज़ाबाद के निर्देशन में थाना बसई मौहम्मदपुर पुलिस टीम द्वारा अवैध शस्त्र फैक्ट्री का भण्डाफ़ोड करते हुए तीन अभियुक्तों को किया गिरफ्तार , कब्जे से भारी मात्रा में बने-अधबने तमंचा, पौनियाँ, कारतूस व शस्त्र बनाने के उपकरण बरामद ।

- करीब दो दर्जन बने-अधबने अवैध तमंचा/पौनियाँ बरामद ।
- भारी मात्रा में अवैध शस्त्र बनाने के उपकरण बरामद ।
- आगामी ग्राम पंचायत चुनाव के दौरान गडबडी फैलाने के उद्देश्य से अवैध शस्त्र बनाकर कर रहे थे बिक्री ।
- पुलिस की सक्रियता से अवैध शस्त्र फैक्ट्री का हुआ भण्डाफ़ोड ।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक फ़िरोज़ाबाद श्री अजय कुमार द्वारा आगामी त्रिस्तरीय ग्राम पंचायत निर्वाचन के मद्देनजर अवैध शस्त्रों के विरुद्ध चलाये जा रहे ऑपरेशन चक्रव्यूह के अन्तर्गत अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण के पर्यवेक्षण एवं क्षेत्राधिकारी सदर के कुशल नेतृत्व में थाना बसई मौहम्मदपुर पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर दिनांक 23.04.2021 को अन्ते की मढैया के जंगल में रामशंकर के खेत के पास टीले के किनारे खडे नीम के पेड के नीचे पडी झोंपडी में अवैध शस्त्रों का निर्माण कर रहे अभियुक्त 1. मूला उर्फ मूलचन्द्र पुत्र पोखीराम 2. रमनिया पुत्र लटूरी सिंह 3. ठकुरी उर्फ ठाकुरदास पुत्र बृजलाल समस्त निवासीगण ग्राम खाँद का पुरा थाना फतेहाबाद जनपद आगरा को गिरफ्तार किया गया । जिनके कब्जे से 12 अदद तमंचे बने चालू हालत में तथा भारी मात्रा में बने-अधबने तमंचे व शस्त्र उपकरण बरामद हुये हैं । अभियुक्तगण से पूछताछ करने पर बताया कि आगामी त्रिस्तरीय ग्राम पंचायत चुनाव में एक अवैध तमंचा 3000 से 4000/- रुपये में बिक जाता है । बरामदगी के आधार पर थाना हाजा पर मु0अ0सं0 64/21 धारा 5/25 शस्त्र अधिनियम बनाम मूला उर्फ मूलचन्द्र, रमनिया तथा ठकुरी उर्फ ठाकुरदास के विरुद्ध पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्तगण –

1. मूला उर्फ मूलचन्द्र पुत्र पोखीराम निवासी ग्राम खाँद का पुरा थाना फतेहाबाद जनपद आगरा ।
2. रमनिया पुत्र लटूरी सिंह निवासी ग्राम खाँद का पुरा थाना फतेहाबाद जनपद आगरा ।
3. ठकुरी उर्फ ठाकुरदास पुत्र बृजलाल निवासी ग्राम खाँद का पुरा थाना फतेहाबाद जनपद आगरा ।

बरामदगी का विवरण –

1	पौनियाँ .315 बोर	01 अदद
2	तमंचा .315 बोर	07 अदद
3	पौनियाँ .12 बोर	01 अदद
4	तमंचा .12 बोर	03 अदद
5	अधबने तमंचे	05 अदद
6	जिन्दा कारतूस .12 बोर	17 अदद
7	जिन्दा कारतूस .315 बोर	05 अदद
8	खोखा कारतूस .315 बोर	08 अदद
9	मैनुअल ड्रिल मशीन	01 अदद
10	मैनुअल बैच भट्टी पंखा	01 अदद
11	पेट्रोमेक्स लाइट	01 अदद

भारी मात्रा में अवैध शस्त्र बनाने के उपकरण –

आरी ब्लेड , हथौडा, रंधा, रिंचें , प्लास, एक अदद बर्मा, सुम्मी, छैनी, रेती, नाल को कसने का छल्ला, छेद करने का सब्बलनुमा लोहा, जैडनुमा लोहे की रॉड, हैमर बॉडी आदि उपकरण ।

आपराधिक इतिहास-(अभियुक्त मूला उर्फ मूलचन्द्र उपरोक्त)-

1. मु0अ0सं0 171/16 धारा 5/25 आर्म्स एक्ट थाना बसई मौहम्मदपुर जनपद फिरोजाबाद ।
2. मु0अ0सं0 171/16 धारा 5/25 आर्म्स एक्ट थाना फतेहाबाद जनपद आगरा ।
3. मु0अ0सं0 64/21 धारा 5/25 आर्म्स एक्ट थाना बसई मौहम्मदपुर जनपद फिरोजाबाद ।
4. मु0अ0सं0 65/21 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना बसई मौहम्मदपुर जनपद फिरोजाबाद ।

आपराधिक इतिहास-(रमनिया उपरोक्त)-

1. मु0अ0सं0 171/16 धारा 5/25 आर्म्स एक्ट थाना फतेहाबाद जनपद आगरा ।
2. मु0अ0सं0 64/21 धारा 5/25 आर्म्स एक्ट थाना बसई मौहम्मदपुर जनपद फिरोजाबाद ।
3. मु0अ0सं0 66/21 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना बसई मौहम्मदपुर जनपद फिरोजाबाद ।

आपराधिक इतिहास-(ठकुरी उर्फ ठाकुरदास उपरोक्त)-

1. मु0अ0सं0 171/16 धारा 5/25 आर्म्स एक्ट थाना फतेहाबाद जनपद आगरा ।
2. मु0अ0सं0 64/21 धारा 5/25 आर्म्स एक्ट थाना बसई मौहम्मदपुर जनपद फिरोजाबाद ।
3. मु0अ0सं0 67/21 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना बसई मौहम्मदपुर जनपद फिरोजाबाद ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

- 1-थानाध्यक्ष महेश सिंह थाना बसई मौहम्मदपुर जनपद फिरोजाबाद ।
- 2-उ0नि0 श्री रामजीमल थाना बसई मौहम्मदपुर जनपद फिरोजाबाद ।
- 3-उ0नि0 श्री इन्दल सिंह थाना बसई मौहम्मदपुर जनपद फिरोजाबाद ।
- 4-उ0नि0 श्री शिवमंगल सिंह थाना बसई मौहम्मदपुर जनपद फिरोजाबाद ।
- 5-है0का0 276 रूपबसन्त थाना बसई मौहम्मदपुर जनपद फिरोजाबाद ।
- 6-है0का0 467 मेघ सिंह थाना बसई मौहम्मदपुर जनपद फिरोजाबाद ।
- 7-का0 120 रामबाबू शर्मा थाना बसई मौहम्मदपुर जनपद फिरोजाबाद ।
- 8-का0 474 बलवीर सिंह थाना बसई मौहम्मदपुर जनपद फिरोजाबाद ।
- 9-का0 845 मौ0 मौसीम थाना बसई मौहम्मदपुर जनपद फिरोजाबाद ।
- 10-का0 1120 समय सिंह थाना बसई मौहम्मदपुर जनपद फिरोजाबाद ।
- 11-का0 627 विजय सिंह थाना बसई मौहम्मदपुर जनपद फिरोजाबाद ।
- 12-का0 605 विनीत कुमार थाना बसई मौहम्मदपुर जनपद फिरोजाबाद ।